

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015—पौष 9, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-967.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, जिला मंदसौर के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल पार्षदों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, जिला मंदसौर.	अध्यक्ष	-	-	श्री प्रहलाद बंधवार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती आशा सुशील संचेती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती मुमताज असफाक खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्री यशवंत भावसार	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती अनिता भांभी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती लिखिता आशीष गौड़	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	पार्षद	6	छः	श्री निरान्त बग्गा	भारतीय जनता पार्टी	
8	पार्षद	7	सात	श्रीमती संगीता नरेन्द्र शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
9	पार्षद	8	आठ	श्रीमती आजाद देवी भारतसिंह कोठारी	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	श्रीमती दीपिका निलेश जैन	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	श्री नरेन्द्र पिता कन्हैयालाल बारिया	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	श्री राम कोटवानी	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	श्री सुनिल जैन महाबली	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	श्री विनोद डगवार	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	श्रीमती रंजना सुदीप पाटिल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	श्री ईस्माईल मेव हाजी मम्मू खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
17	पार्षद	16	सोलह	श्री सुभाष (गुड्डू) गढ़वाल	भारतीय जनता पार्टी	
18	पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती सरस्वती ग्वाला	भारतीय जनता पार्टी	
19	पार्षद	18	अठारह	श्री श्रवण रजबानिया	भारतीय जनता पार्टी	
20	पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती संध्या पति अरुण शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
21	पार्षद	20	बीस	कु. रश्मि पिता शम्भुलाल राठौर	भारतीय जनता पार्टी	
22	पार्षद	21	इक्कीस	श्री विजय गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
23	पार्षद	22	बाईस	श्रीमती अंगूरबाला अशोक कर्नावट	भारतीय जनता पार्टी	
24	पार्षद	23	तेईस	श्रीमती रेखा राजेश सोनी	भारतीय जनता पार्टी	
25	पार्षद	24	चौबीस	श्री हाजी रशीद	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
26	पार्षद	25	पच्चीस	श्री मुकेश कुमार रतनलाल जी खमेसरा	भारतीय जनता पार्टी	
27	पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमती राधिका शास्त्री	भारतीय जनता पार्टी	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	नाजिया बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमती शाकेरा युसुफ खेड़ीवाला	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
30	पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती शबीनाबी मो. आसीफ	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
31	पार्षद	30	तीस	कु. रुखसार गोरि	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
32	पार्षद	31	इकतीस	श्री जितेन्द्र सोपरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
33	पार्षद	32	बत्तीस	श्री पुलकित पटवा	भारतीय जनता पार्टी	
34	पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमती दीपिका तरूण खिंची	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
35	पार्षद	34	चौतीस	श्री मोहम्मद हनीफ शेख	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36		पार्षद	35	पैंतीस	श्री विक्रम भेरवा	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	श्री नारायण कुरारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38		पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमती सुनीता बाहेती	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	श्री डिगपाल सिंह भाटी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
40		पार्षद	39	उन्चालीस	श्रीमती विद्या पुखराज दशौरा	भारतीय जनता पार्टी
41		पार्षद	40	चालीस	श्री अनिल मालवीय	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-968.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, ओरछा, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	नगर परिषद, ओरछा, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	-	अहीर राजकुमारी बलराम सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	एक	आदिवासी सतीश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दो	किरन सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	तीन	नुनिया कुशवाहा	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	चार	कलार हिदेश राय	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	पांच	प्रमोद कुमार खंगार उर्फ मुन्नीलाल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	छः	राखी संतोष पुरी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सात	लक्ष्मी ढीमर	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	आठ	शीला रामदास	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10		पार्षद	9	नौ	खंगार स्नेहा दिलीप सिंह परिहार	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	रीता रब्बी यादव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शोभा नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	वीरेन्द्र कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	लक्ष्मन दास कुशवाहा	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	अहीर जामवती भरत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहीर विनीता राघवेंद्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-969.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, भेड़ाघाट, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, भेड़ाघाट, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति शैला सुनील जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	शफीया/आमीन खॉन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	किशोर दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	जयंती संदीप बाबा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति मीरा दाहिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	धर्मेन्द्र पुरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	लव दाहिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति मीनाक्षी सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	देवीदीन यादव	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति शांति बाई / राजेश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	प्यारेलाल भूमिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	एडवोकेट राकेश तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सुमैर गौड़	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति बबीता दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति शीला बाई यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	छोटी बाई उर्फ पुष्पा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-972.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर.	अध्यक्ष	-	-	अमीता-जसपाल अरोरा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मनोज राय	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	धर्मेन्द्र-धम्मू	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	कांताबाई गुलाब सिंह	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	प्रीति-दिनेश सक्सेना	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	संध्या जैन	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	हरशा-दिनेश कटारिया	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	विजेन्द्र परमार	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	पार्षद	8	आठ	श्री ललित भारद्वाज	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	श्रीमति हेमलता राठौर (हेमा राठौर)	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	श्रीमति नमिता विवेक राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
12	पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति आरती नरेन्द्र खंगराले	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
13	पार्षद	12	बारह	श्री राजेश यादव (पप्पू)	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	श्री अर्जुन राठौर	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	श्रीमति सुनीता संतोष शाक्य	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	कमलेश राठौर	भारतीय जनता पार्टी	
17	पार्षद	16	सोलह	अनीता रमेश राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
18	पार्षद	17	सत्रह	गोपाल सिंह बिसोरिया	भारतीय जनता पार्टी	
19	पार्षद	18	अठारह	राखी सुशील ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी	
20	पार्षद	19	उन्नीस	शकुन्तला सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी	
21	पार्षद	20	बीस	आकाश रोहित	भारतीय जनता पार्टी	
22	पार्षद	21	इक्कीस	मनोज गुजराती (पाटीदार)	निर्दलीय	
23	पार्षद	22	बाईस	विशाल राठौर	भारतीय जनता पार्टी	
24	पार्षद	23	तेईस	रामप्रकाश चौधरी (रामू भाई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
25	पार्षद	24	चौबीस	नीता-महेश यादव	निर्दलीय	
26	पार्षद	25	पच्चीस	सोदराबाई मेवाड़ा (मुकेश मेवाड़ा)	भारतीय जनता पार्टी	
27	पार्षद	26	छब्बीस	मो. साजिद शाह	निर्दलीय	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	बबीता-वीरेन्द्र सलूजा	भारतीय जनता पार्टी	
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	औम प्रकाश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
30	पार्षद	29	उन्तीस	सत्यनारायण वारिया	भारतीय जनता पार्टी	
31	पार्षद	30	तीस	इशरत इरशाद पहलवान	निर्दलीय	
32	पार्षद	31	इकत्तीस	तबस्सुम मो. शफीक (बाबा)	निर्दलीय	
33	पार्षद	32	बत्तीस	ऐस-आजम नेता	निर्दलीय	
34	पार्षद	33	तैंतीस	आरिफ पहलवान	भारतीय जनता पार्टी	
35	पार्षद	34	चौतीस	कपिल कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी	
36	पार्षद	35	पैंतीस	मांगीलाल मालवीय मंगू	भारतीय जनता पार्टी	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-973.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, शाहगंज, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
1	नगर परिषद शाहगंज, जिला सीहोर	अध्यक्ष	-	-	भैय्यालाल आ. गन्नुलाल गौर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रितु दिलीप यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	विकास रंजन भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	समनखान पत्नि हसीव खान	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शांति कन्छेदी अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	हरीशंकर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नरेश कुमार आ. दीवान प्रसाद त्रिवेदी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	उमेश केवट आ. गटरु लाल केवट	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	धर्मेन्द्र साहू	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अशोक कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राजीव गौर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	हरीवाई पत्नि ओमनारायण गौर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रूपाली	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	शोभा प्रदीप भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	संगीता सुधीर भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	परसराम सरेआम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-974.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, धामनोद, जिला रतलाम के माह दिसम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल	पार्षद हेतु अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद, धामनोद, जिला रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	चव्हाण विष्णु कारूलाल (भिल)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	सत्यनारायण पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रेवाशंकर रामचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती चंद्रकला व्यास	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	आशा पाटीदार-मदनलाल पाटीदार	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	दीपा (बंटी) पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	देविका कमलेश शर्मा	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	देवीलाल पाटीदार (गौरा)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जगदीश पाटीदार "बावड़ीवाला"	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	गोविन्द परिहार	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कांतीबाई समरथ कटारा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सोहनबाई पति बालाराम सुतार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	बद्रीलाल पिता कालु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	विककी ओहरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	यशोदा बाई पारस पग्गी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गुड्डीबाई कैलाशचन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.